

असम के अभयारण्य में तेल व गैस की खोज की जाएगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 जनवरी।

केंद्र की वन्यजीव समिति ने असम के जोरहाट जिले में होलोंगापर गिब्वन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में हुई बैठक के विवरण के मुताबिक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति ने 21 दिसंबर को अपनी बैठक के दौरान वेदांता समूह की केयर्न आयल एंड गैस के प्रस्ताव को

केंद्र की वन्यजीव समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
परियोजना स्थल असम-नगालैंड सीमा पर विवादित क्षेत्र में स्थित है।

मंजूरी दी। परियोजना स्थल असम-नगालैंड सीमा पर विवादित क्षेत्र में स्थित है। होलोंगापर गिब्वन वन्यजीव अभयारण्य 20.98 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि इसका ईएसजेड 264.92 वर्ग किलोमीटर में फैला है। असम के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन ने पिछले वर्ष अगस्त में ‘राष्ट्रीय हित’ का हवाला

देते हुए परियोजना को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने भी पिछले साल 27 अगस्त को अपनी बैठक में इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। एनबीडब्ल्यूएल की बैठक के विवरण के मुताबिक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) और असम वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने 15 नवंबर को अभयारण्य से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति ने पाया कि अन्वेषण के लिए खोदाई से न्यूनतम क्षति होगी, लेकिन कहा कि वाणिज्यिक खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नहीं रहे वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल छागला

मुंबई, 12 जनवरी (भाषा)।

देश के प्रमुख वकीलों में से एक वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल छागला का मुंबई में रविवार को निधन हो गया। उनके परिवार के लोगों ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल छागला 85 वर्ष के थे। बांबे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमसी छागला के बेटे इकबाल छागला कुछ दिनों से बीमार थे। वे बांबे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आरआइ छागला के पिता थे। सूत्रों के अनुसार मुंबई के वली श्मशान घाट में सोमवार को छागला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। छागला का जन्म साल 1939 में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इतिहास और विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने ‘बांबे बार’ में सेवाएं दी थीं और 1970 के दशक में वह वरिष्ठ अधिवक्ता बने। साल 1990 से 1999 तक छागला ने तीन कार्यकाल तक बांबे बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद संभाला था। छागला को ‘बार’ से सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। इकबाल छागला मुख्यतः दीवानी और कंपनी मामलों में वकालत करते रहे।

ट्रक और टेम्पो की टक्कर में आठ की मौत

नासिक, 12 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के नासिक जिले के द्वारका सर्किल में रविवार को एक टेम्पो और ट्रक की टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना शाम साढ़े सात बजे अय्याया मंदिर के निकट हुई। उन्होंने बताया कि टेम्पो में 16 यात्री सवार थे, जो यहां सिडको क्षेत्र जा रहे थे। वे निफाड में एक धार्मिक कार्यक्रम

से लौट रहे थे। टेम्पो चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और लोहे की छड़ों से लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि पुलिस और दमकलकर्मियों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में निवासियों और राहगीरों के साथ मिलकर तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। अधिकारी ने बताया कि घायलों का जिला अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।

छात्रा ने इमारत से कूदकर आत्महत्या की छतरपुर, 12 जनवरी (भाषा)। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कालेज की एक 26 वर्षीय छात्रा ने कथित रूप से इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि घटना सिविल लाइन थानाक्षेत्र में रविवार सुबह हुई।

प्ररूप संरख्या आईएनएसी-26	प्ररूप संरख्या आईएनएसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसारण में) केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में मधुवन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U70109DL2006PTC154685) जिसका पंजीकृत कार्यालय: मकान नंबर 2266, गली नंबर-68, नाईवाला, करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली-110006 में है, के मामले में ... आवेदक कंपनी/वाचिकाकर्ता एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली” से “हरियाणा राज्य” में स्थानांतरित करने के लिए 10 जनवरी 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एंजोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंबेदकर भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर परानी भेजे। मकान नंबर 2266, गली नंबर-68, नाईवाला, करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली-110005 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से मधुवन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/— संजय कुमार जैन (निदेशक) दिनांक: 13.01.2025 स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 01400586	(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसारण में) केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में इंटीग्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U74899DL2000PTC108912) जिसका पंजीकृत कार्यालय: मेज एए प्रथम तल, ए-83, ओखला औद्योगिक क्षेत्र ओखला, फेज 2, नई दिल्ली-110020 में है, के मामले में ... आवेदक कंपनी/वाचिकाकर्ता एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली” से “उत्तर प्रदेश राज्य” में स्थानांतरित करने के लिए 23 दिसंबर 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एंजोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंबेदकर भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर परानी भेजे। मेज एए प्रथम तल, ए-83, ओखला औद्योगिक क्षेत्र ओखला, फेज 2, नई दिल्ली-110020 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से इंटीग्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/— अनिल कुमार तुफ्फी (निदेशक) दिनांक: 13.01.2025 स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 01836465



SAT KARTAR SHOPPING LIMITED

Our Company was incorporated as a private limited company with the name of “Sat Kartar Shopping Private Limited” under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated June 29, 2012, issued by Registrar of Companies, Delhi, bearing CIN U52590DL2012PTC238241. Further, our company was converted into a Public Limited Company in pursuance of a special resolution passed by the members of our Company at the Extra Ordinary General Meeting held on May 15, 2021 & name of our Company changed from “Sat Kartar Shopping Private Limited” to “Sat Kartar Shopping Limited” & Registrar of Companies, Delhi has issued a new certificate of incorporation consequent upon conversion dated July, 12, 2021. As on date of the Red Herring Prospectus, the Corporate Identification Number of our Company is U52590DL2012PLC238241. For further details of incorporation please refer to section titled “Our History and Certain Other Corporate Matters” beginning on page 185 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: 603, 6th Floor, Mercantile House, KG Marg, New Delhi - 110001 India.
Tel: +91-9319888634; **Fax:** N.A., **Website:** www.satkartar.in, **E-mail:** info@satkartar.in
Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Himanshu Malik



PROMOTERS: MR. MANPRIT SINGH CHADHA, MR. PRANAV SINGH CHADHA, MS. SIMRATI KAUR & M/S AJOONI WELLNESS PRIVATE LIMITED

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFERING UP TO 41,72,800 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH (“EQUITY SHARES”) OF SAT KARTAR SHOPPING LIMITED (“SKSL” OR THE “COMPANY”) FOR CASH AT A PRICE OF RS. [•]/- PER EQUITY SHARE (THE “ISSUE PRICE”), AGGREGATING TO RS. [•] THOUSANDS (“THE ISSUE”). OUT OF THE ISSUE, 2,33,600 EQUITY SHARES AGGREGATING TO RS. [•] THOUSANDS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER (“MARKET MAKER RESERVATION PORTION”), THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 39,39,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. [•]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. [•] THOUSANDS IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE “NET ISSUE”. THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.02%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THIS ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS, IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE “SEBI (ICDR) REGULATIONS”), AS AMENDED READ WITH RULE 19(2)(B) OF SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED.

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS

This Corrigendum should be read with the Red Herring Prospectus dated January 04, 2025, and Pre-Issue Advertisement dated January 06, 2025.

STATEMENT OF CASH FLOW AS RESTATED		(Amount in Thousands)			
Particulars	15-12-2024	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022	
Operating Activity:-					
Net Profit Before Tax	79,257.87	85,945.77	34,435.35	15,050.07	
<i>Adjustment For:</i>					
Amount Written off	209.59	2,725.85	12.98	2,775.86	
Finance cost	3,531.69	5,178.94	4,784.82	4,601.30	
Depreciation	7,732.29	13,271.13	13,160.61	7,241.18	
Profit / Loss on sale of Fixed Assets	16.80	(1,541.63)	296.70	3,955.32	
Profit / Loss on sale of Investment	(758.61)	-	(42.00)	(3,448.35)	
Interest received	-	-	(221.59)	-	
Operating Profit Before Working Capital Change	89,989.64	1,05,580.05	52,648.47	27,177.94	
Changes in working capital:-	(1,09,089.26)	(5,603.24)	34,088.20	(4,015.59)	
(Increase)/Decrease in Inventories	(13,538.57)	(2,264.37)	355.02	(1,203.03)	
(Increase)/Decrease in Trade receivables	(43,747.24)	(24,944.36)	42.01	(2,741.94)	
(Increase)/Decrease in Current Investment	-	-	1,510.47	58.54	
(Increase)/Decrease in Short Term Loans and Advances	(41,360.11)	900.93	(6,710.74)	1,028.87	
(Increase)/Decrease in other Current Assets	(15,417.79)	(11,411.00)	7,043.84	1,089.61	
Increase/(Decrease) in Trade Payable	1,298.09	28,016.03	10,958.87	1,501.37	
Increase/(Decrease) in Short Term Borrowings	26,262.81	(708.05)	(4,573.80)	2,512.90	
Increase/(Decrease) in other Current Liabilities	(22,586.45)	4,807.58	25,462.33	(9,037.76)	
Cash generated from Operation	(19,099.62)	99,976.81	86,736.70	23,162.35	
Income Tax Paid / (Refund)	5,998.98	29,551.54	6,994.52	437.28	
Net Cash from Operating Activity	(25,098.60)	70,425.27	79,742.17	22,725.07	
Investing activity:-					
(Increase) / Decrease in Fixed Assets	(9,051.17)	(5,096.37)	(44,571.96)	(28,882.69)	
Sale of Fixed Assets	270.00	6,202.11	21,200.00	21,893.52	
Purchase of Investments	6,003.11	(25,506.40)	(8,430.82)	-	
Interest received	-	-	42.00	221.59	
Cash advances and loans made to other parties	42,728.79	(1,715.45)	(3,317.92)	(828.20)	
Net Cash from Investing Activity	39,950.73	(26,116.11)	(35,078.51)	(7,595.78)	
Financing Activities:-					
Finance cost	(3,531.69)	(5,178.94)	(4,784.82)	(4,601.30)	
Long Term Borrowings	(3,798.67)	(19,016.82)	(44,128.37)	(7,488.80)	
Other Inflows / (Outflows) of cash	(490.00)	(1,470.00)	-	-	
Proceeds from Issue of share capital	19,999.09	-	-	-	
Net Cash from Financing Activity	12,178.73	(25,665.76)	(48,913.19)	(12,090.09)	
Net (Increase)/(Decrease) in A, B & C) in Cash & Cash equivalents	27,030.86	18,643.40	(4,249.52)	3,039.20	
Opening Cash & Cash Equivalent	25,187.68	6,544.28	10,793.80	7,754.60	
Closing Cash & Cash Equivalent*	52,218.54	25,187.68	6,544.28	10,793.80	
* Comprises					
Cash in hand	1,614.43	1,028.23	3,569.36	1,179.46	
Cheques in hand	-	-	-	-	
Balance with Banks	50,604.11	24,159.45	2,974.92	2,114.34	
Fixed Deposit	-	-	-	7,500.00	

Note 25
Related Party disclosures as identified by the company and relied upon by the auditors
The details of Related Party Transactions are as follows:

A	Related Parties and their Relationship
(i)	Key Management Personnel
1	Ved Prakash
2	Sanjay Kumar
3	Richa Takkar
4	Amit Kumar Sharma
5	Rajesh Khatri
6	Ravi Kumar
7	Archana Chadha
8	Simrati Kaur
(ii)	Relative of Key Management Personnel (having transactions with the company)
1	Paramjit Singh Chadha
2	Manprit Singh Chadha
3	Archana Chadha
4	Pranav Singh Chadha
5	Amarjit Chadha
6	Aryaman Singh Chadha
7	Ajooni Kaur
8	Sunita Prakash Gola
9	Abhishek Prakash
10	Anita
11	Jyoti Takkar
12	Kanika Takkar
13	Jaasjeet Kaur
(iii)	Enterprises owned or significantly influenced by Key Management personnel or their relatives.
1	Manprit Singh & Associates
2	Manprit Singh Chadha HUF
3	SK Sarthi Pvt Ltd
4	I.T.S. Euroswiss Travels Private limited
5	Affiance Advertisement
6	Ajooni Wellness Private Limited
7	Ved Prakash & Sons HUF
8	Ajooni Life Sciences Pvt Ltd
9	Paramjit Singh Chadha HUF

Transactions with Related parties		(Amount in Thousands)			
Particulars	For the period ending 15 th Dec 2024	For the Year ending 31 st March 2024	For the Year ending 31 st March 2023	For the Year ending 31 st March 2022	
Key Management Personnel					
Director Fees					
Ved Prakash	3654.08	4692.00	2977.22	1140.00	
Sanjay Kumar	1038.95	1163.40	1080.00	990.00	
Manprit Singh Chadha	0.00	12296.70	7000.00	3277.42	
Richa Takkar	0.00	845.13	94.82	0.00	
Amit Kumar Sharma	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rajesh Khatri	0.00	0.00	1925.00	800.00	
Ravi Kumar	0.00	817.20	220.00	0.00	
Archana Chadha	0.00	0.00	0.00	0.00	
Simrati Kaur	988.96	0.00	0.00	0.00	
Pranav Singh Chadha	969.17	0.00	0.00	0.00	
Loan Taken					
Manprit Singh Chadha	1745.77	9650.70	21388.86	12919.55	
Ved Prakash	0.00	0.00	3750.00	0.00	
Loan Repaid					
Manprit Singh Chadha	1745.77	11282.67	29299.06	13102.21	
Ved Prakash	0.00	0.00	3750.00	0.00	
Advance Given					
Ved Prakash	0.00	3950.00	630.00	0.00	
Richa Takkar	0.00	0.00	0.00	200.00	
Advance Returned					
Ved Prakash	0.00	4087.55	492.45	0.00	
Richa Takkar	0.00	86.00	120.00	30.00	
Other Related Parties					
Advertisement Exp					
Manprit Singh Chadha HUF	0.00	0.00	1900.00	0.00	
Affiance Advertisement	486.42	455.32	1502.00	0.00	
I.T.S. Euroswiss Travels Private limited	0.00	40769.00	6136.00	3563.60	
SK Sarthi Pvt Ltd	580.00	49324.00	12390.00	4838.00	
Ved Prakash & Sons HUF	0.00	980.00	980.00	0.00	
Paramjit Singh Chadha HUF	0.00	0.00	1900.00	0.00	
Rent					
Paramjit Singh Chadha	320.00	0.00	0.00	0.00	
Archana Chadha	200.00	0.00	0.00	0.00	
Sales					
Ajooni Life Sciences Pvt Ltd	478.81	125.44	0.00	0.00	
I.T.S. Euroswiss Travels Private limited	0.00	565.38	44.97	0.00	
Purchase					
Ajooni Life Sciences Pvt Ltd	1337.81	0.00	0.00	0.00	
Relative of Key Management Personnel					
Salary					
Archana Chadha	0.00	2565.60	1500.00	1309.86	
Pranav Singh Chadha	513.92	893.08	0.00	394.23	
Aryaman Singh Chadha	0.00	2185.60	600.00	542.74	
Ajooni Kaur	0.00	340.00	360.00	300.00	
Sunita Prakash Gola	0.00	865.60	1020.00	492.74	
Abhishek Prakash	796.54	1150.60	733.40	311.37	
Anita	0.00	420.00	600.00	50.00	
Jyoti Takkar	0.00	776.45	292.52	0.00	
Kanika Takkar	0.00	550.70	446.14	276.91	
Jasjeet Kaur	0.00	450.00	100.00	0.00	
Manprit Singh Chadha	10866.38	0.00	0.00	0.00	
Loan Taken					
Paramjit Singh Chadha	0.00	631.01	40.00	1800.00	
Archana Chadha	0.00	900.00	0.00	0.00	
Amarjit Kaur	0.00	148.03	938.62	0.00	
Pranav Singh Chadha	0.00	14.52	0.00	0.00	
SK Sarthi Pvt Ltd	14695.00	19831.06	42710.00	7554.02	
Aryaman Singh Chadha	0.00	2241.56	0.00	0.00	
Ajooni Life Sciences Pvt Ltd	0.00	91.48	0.00	0.00	
Ajooni Wellness Pvt Ltd	2000.00	4.65	0.00	0.00	
Loan Repayment					
Paramjit Singh Chadha	0.00	614.83	4117.25	2623.77	
Amarjit Chadha	0.00	148.03	19.92	1855.91	
Archana Chadha	0.00	0.00	6913.97	114.43	
Pranav Singh Chadha	0.00	14.52	7354.20	0.41	
Manprit Singh & Associates	0.00	329.30	0.00	50.00	
SK Sarthi Pvt Ltd	45780.93	15080.00	47630.08	7385.00	
Manprit Singh Chadha HUF	0.00	0.00	1900.00	0.00	
Aryaman Singh Chadha	0.00	2241.56	0.00	0.00	
Ajooni Life Sciences Pvt Ltd	91.48	0.00	0.00	0.00	
Ajooni Wellness Pvt Ltd	2004.65	0.00	0.00	0.00	
Advance Given					
Kanika Takkar	0.00	0.00	0.00	170.00	
Advance Recovered					
Kanika Takkar	0.00	40.00	100.00	30.00	